

GIL/DEL/2021-22 November 15, 2021

The Manager

Bombay Stock Exchange Limited

Floor 25, PJ Towers

Dalal Street, Mumbai- 400 001

INDIA

Scrip Code: 533265

The Manager

National Stock Exchange of India Limited

"EXCHANGE PLAZA"

Bandra - Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai- 400 051

INDIA

Scrip Code: GALLISPAT

Dear Sir/Madam,

SUB: NEWSPAPER CUTTINGS FOR PUBLICATION OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021

Please find attached herewith the newspaper cuttings for publication of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended September 30, 2021 in two newspapers Business Standard (English - all edition) and Metro Media (Hindi -Vernacular).

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For GALLANTT ISPAT LIMITED

GALLANTT ISPAT LIMITED,

Company Secretary
Nitesh Kumar

COMPANY SECRETARY

M.N. F7496

Encl: As above

GALLANTT ISPAT LIMITED

Registered Office: "GALLANTT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Delhi -110 014 Telefax: 011-41645392, E-mail: gil@gallantt.com, Website: www.gallantt.com

Factory: AL-5, Sector-23, Sahjanwa, District - Gorakhpur, Uttar Pradesh

Corporate Office: 1, Crooked Lane, Second Floor, Room Nos. 222 & 223, Kolkata - 700069 Tel: 033-46004831 Corporate Identification No.: L27109DL2005PLC350523





EXTILES LIMITED

E-Mail: info@viiavtextiles.in

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2021

	K THE QUARTER AND	TIVAL!	ILAK	NOLD (OL.	ILMBE	,
_						(Rs	.in Lakhs)
		G	uarter ende	d	Half Yea	Year ended	
S.	Particulars	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021
No.		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)
1.	Total income from operations	698.47	479.48	726.53	1177.94	992.39	2534.98
2.	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(704.60)	(611.77)	(902.70)	(1316.37)	(1580.89)	(3556.20)
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(704.59)	(611.77)	(902.70)	(1316.37)	(1580.89)	(2395.95)
4.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(610.70)	(425.92)	(689.85)	(1036.62)	(1063.99)	(2395.95)
5.	Equity Share Capital(of Rs.10/- each)	1830.05	1830.05	1830.05	1830.05	1830.05	1830.05
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as show in the Balance Sheet of previous year)	1	•			-	
7.	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each) Basic : Diluted :	(3.34) (3.34)	(2.33) (2.33)	(0.38) (0.38)	(5.66) (5.66)	(5.57) (5.57)	(13.46) (13.46)
8.	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each) Basic: Diluted:	(3.34) (3.34)	(2.33) (2.33)	(3.77) (3.77)	(5.66) (5.66)	(5.57) (5.57)	(13.46) (13.46)

NOTE: 1. The above is an extract of the detailed format of un-audited financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the un-audited results for the quarter and half year ended 30th September, 2021 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com). 2. Consortium Banks viz. State Bank of India and Axis Bank Limited have acceded to Company's request for release of documents of its Kattedan property against deposit of Rs.33.09 Crore in the accounts with both the banks, which the Company has complied with in the month of August/September 2021, and as a result the total fund-based exposure with the banks stood reduced to Rs.75.01 Crore. 3. Notwithstanding the Company's operations were impacted by resurgence of 2nd wave of COVID-19 Pandemic, still it has registered an increase in its revenue from operations over the corresponding quarter ended 30 September 2020. The Company is positive on the long-term business outlook as well as its financial position. However, the Company will continue to monitor developments to identify significant uncertainties relating to business operations in future periods. 4. Figures of the previous quarters/year have been re-grouped and re-classified wherever necessary to correspond with current year's presentation.

For and on behalf of the Board

Place : Secunderabad Date: 13.11.2021

Sd/RAKESH MALHOTRA

IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED CIN: U45208OR2009PLC011389

Regd Office - Plot No. 188/183, Zero Point, Udayabata, Paradeep, Jagatsinghpur Odisha, India, 754141

Phone: 022-61524500, email: girjesh.shrivastava@iotl.com STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.2021

						no	in Crore
Sr.				Corre-	Year to		
No	Particulars			sponding	Date		
				3 Months	Figures for	Year to	
			Preceding	ended	Current	Date for	Previous
		3 Months Ended	3 Months	Previous	period	Previous Year Ended	
		30.09.2021	Ended	Year 30.09.2020	ended	30.09.2020	
_	D		Unaudited		Unaudited		Audited
1	Revenue from Operation						
	Income from Operations Total Income from Operation	121.94 121.94	121.59 121.59	121.10 121.10	243.53 243.53	241.65 241.65	484.3 484.3
2	Expenses	121.94	121.09	121.10	240.00	241.00	404.3
_	a. Cost of O&M Services	11.96	11.67	11.27	23.63	22.09	44.9
	b. Employee Benefit Expenses	0.46	0.43	0.32	0.89	0.75	1.4
	c. Depreciation and amortisation expense	59.66	59.66	59.64	119.32	119.29	238.5
	d. Other expenses	2.61	2.59	2.56	5.20	5.05	11.0
	Total Expenses	74.68	74.36	73.79	149.04	147.18	296.0
3	Profit from operations before other						
	income, exchange gain / (loss) on swap						
	contracts, finance costs and exceptional						
	items 1-2	47.26	47.24	47.31	94.49	94.47	188.2
4	Other Income	3.79	3.34	4.41	7.14	8.53	16.7
5	Exchange gain / (loss)						
6	Profit from ordinary activities before finance						
	costs and exceptional items 3+4+5	51.05	50.58	51.72	101.63	103.00	204.9
7	Finance Costs	45.64	46.46	49.70	92.10	99.76	195.6
8	Profit from ordinary activities after finance						
	costs but before exceptional items 6-7	5.41	4.12	2.02	9.53	3.24	9.3
9	Exceptional Items -	-	-	-		-	
10	Profit from ordinary activities before tax 8+9	5.41	4.12	2.02	9.53	3.24	9.3
11	Tax Expenses	1.36	1.04	(0.24)	2.40	0.81	2.3
12	Profit from ordinary activities after tax 10-11	4.05	3.08	2.26	7.13	2.43	7.0
13	Extraordinary Item (net of tax)		-			1-	
14	Net Profit for the period 12-13	4.05	3.08	2.26	7.13	2.43	7.0
15	Other Comprehensive Income (net of tax)	-	-		-	-	
16	Total Comprehensive Income 14-15	4.05	3.08	2.26	7.13	2.43	7.0
17	Paid up Equity Share Capital						
	(Face value per share Rs 10)	526.28	526.28	526.28	526.28	526.28	526.2
18	Paid up Debt Capital	1,744.31	1,796.54	1,902.44	1,744.31	1,902.44	1,848.7
19	Reserves excluding Revaluation Reserve						
20		(199.52)	(203.56)	(211.25)	(199.52)	(211.25)	
	Net Worth	(199.52) 326.76	(203.56) 322.71	(211.25) 315.03	(199.52) 326.76	(211.25) 315.03	
21	Outstanding redeemable preference shares	326.76	322.71	315.03	326.76	315.03	(206.65 319.6
	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value);						319.6
	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture	326.76 NA	322.71 NA	315.03 NA	326.76 NA	315.03 NA	319.6 N
22	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve;	326.76	322.71	315.03	326.76	315.03	
22	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs)	326.76 NA NA	322.71 NA NA	315.03 NA NA	326.76 NA NA	315.03 NA NA	319.6 N. N.
22 23	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised)	326.76 NA NA 0.08	322.71 NA NA 0.06	315.03 NA NA 0.04	326.76 NA NA 0.14	315.03 NA NA 0.05	319.6 N N 0.1
22 23 24	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Equity Ratio	326.76 NA NA 0.08 5.34	322.71 NA NA 0.06 5.57	315.03 NA NA 0.04 6.04	326.76 NA NA 0.14 5.34	315.03 NA NA 0.05 6.04	319.6 N. N. 0.1 5.7
22 23 24 25	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Equity Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	326.76 NA NA 0.08 5.34 1.12	322.71 NA NA 0.06 5.57 1.10	315.03 NA NA 0.04 6.04 1.43	326.76 NA NA 0.14 5.34 1.11	315.03 NA NA 0.05 6.04 1.40	319.6 N. N. 0.1 5.7 1.4
22 23 24 25 26	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Equity Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	326.76 NA NA 0.08 5.34 1.12 2.43	322.71 NA NA 0.06 5.57 1.10 2.37	315.03 NA NA 0.04 6.04 1.43 2.24	326.76 NA NA 0.14 5.34 1.11 2.40	315.03 NA NA 0.05 6.04 1.40 2.23	319.6 N. 0.1 5.7 1.4 2.2
22 23 24 25 26 27	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Equity Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (ISCR) Net profit after tax;	326.76 NA NA 0.08 5.34 1.12 2.43 4.05	322.71 NA NA 0.06 5.57 1.10 2.37 3.08	315.03 NA NA 0.04 6.04 1.43 2.24 2.26	326.76 NA NA 0.14 5.34 1.11 2.40 7.13	315.03 NA NA 0.05 6.04 1.40 2.23 2.43	319.6 N. N. 0.1 5.7 1.4 2.2 7.0
22 23 24 25 26 27 28	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Equity Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (ISCR) Net profit after tax; Current ratio;	326.76 NA NA 0.08 5.34 1.12 2.43 4.05 1.06	322.71 NA NA 0.06 5.57 1.10 2.37 3.08 1.04	315.03 NA NA 0.04 6.04 1.43 2.24 2.26 0.98	326.76 NA NA 0.14 5.34 1.11 2.40 7.13 1.06	315.03 NA NA 0.05 6.04 1.40 2.23 2.43 0.98	319.6 N. N. 0.1 5.7 1.4 2.2 7.0 1.0
22 23 24 25 26 27 28 29	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Equity Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (ISCR) Net profit after tax; Current ratio; Long term debt to working capital;	326.76 NA NA 0.08 5.34 1.12 2.43 4.05 1.06 59.54	322.71 NA NA 0.06 5.57 1.10 2.37 3.08 1.04 90.09	315.03 NA NA 0.04 6.04 1.43 2.24 2.26 0.98 (182.82)	326.76 NA NA 0.14 5.34 1.11 2.40 7.13 1.06 59.54	315.03 NA NA 0.05 6.04 1.40 2.23 2.43 0.98 (182.82)	319.6 N. 0.1 5.7 1.4 2.2 7.0 1.0
22 23 24 25 26 27 28 29 30	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Equity Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (ISCR) Net profit after tax; Current ratio; Long term debt to working capital; Bad debts to Account receivable ratio;	326.76 NA NA 0.08 5.34 1.12 2.43 4.05 1.06 59.54 NA	322.71 NA NA 0.06 5.57 1.10 2.37 3.08 1.04 90.09 NA	315.03 NA NA 0.04 6.04 1.43 2.24 2.26 0.98 (182.82) NA	326.76 NA NA 0.14 5.34 1.11 2.40 7.13 1.06 59.54 NA	315.03 NA NA 0.05 6.04 1.40 2.23 2.43 0.98 (182.82) NA	319.6 N N 0.1 5.7 1.4 2.2 7.0 1.0 1,142.4 N
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Equity Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (ISCR) Net profit after tax; Current ratio; Long term debt to working capital; Bad debts to Account receivable ratio; Current liability ratio;	326.76 NA NA 0.08 5.34 1.12 2.43 4.05 1.06 59.54 NA 0.21	322.71 NA NA 0.06 5.57 1.10 2.37 3.08 1.04 90.09 NA 0.20	315.03 NA NA 0.04 6.04 1.43 2.24 2.26 0.98 (182.82) NA 0.18	326.76 NA NA 0.14 5.34 1.11 2.40 7.13 1.06 59.54 NA 0.21	315.03 NA NA 0.05 6.04 1.40 2.23 2.43 0.98 (182.82) NA 0.18	319.6 N N 0.1 5.7 1.4 2.2 7.0 1.0 1,142.4 N 0.1
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Equity Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (ISCR) Net profit after tax; Current ratio; Long term debt to working capital; Bad debts to Account receivable ratio; Current liability ratio; Total debts to total assets;	326.76 NA NA 0.08 5.34 1.12 2.43 4.05 1.06 59.54 NA 0.21 0.77	322.71 NA NA 0.06 5.57 1.10 2.37 3.08 1.04 90.09 NA 0.20 0.78	315.03 NA NA 0.04 6.04 1.43 2.24 2.26 0.98 (182.82) NA 0.18 0.78	326.76 NA NA 0.14 5.34 1.11 2.40 7.13 1.06 59.54 NA 0.21 0.77	315.03 NA NA 0.05 6.04 1.40 2.23 2.43 0.98 (182.82) NA 0.18 0.78	319.6 N N 0.1 5.7 1.4 2.2 7.0 1.142.4 N 0.1
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Equity Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (ISCR) Net profit after tax; Current ratio; Long term debt to working capital; Bad debts to Account receivable ratio; Current liability ratio; Total debts to total assets; Debtors turnover;- not annualised	326.76 NA NA 0.08 5.34 1.12 2.43 4.05 1.06 59.54 NA 0.21 0.77 2.71	322.71 NA NA 0.06 5.57 1.10 2.37 3.08 1.04 90.09 NA 0.20 0.78 2.70	315.03 NA NA 0.04 6.04 1.43 2.24 2.26 0.98 (182.82) NA 0.18 0.78 2.77	326.76 NA NA 0.14 5.34 1.11 2.40 7.13 1.06 59.54 NA 0.21 0.77 5.42	315.03 NA NA 0.05 6.04 1.40 2.23 2.43 0.98 (182.82) NA 0.18 0.78 5.52	319.6 N N 0.1 5.7 1.4 2.2 7.0 1.142.4 N 0.1 0.7
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Service Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (ISCR) Net profit after tax; Current ratio; Long term debt to working capital; Bad debts to Account receivable ratio; Current liability ratio; Total debts to total assets; Debtors turnover; - not annualised Inventory turnover; - not annualised	326.76 NA NA 0.08 5.34 1.12 2.43 4.05 1.06 59.54 NA 0.21 0.77 2.71 NA	322.71 NA NA 0.06 5.57 1.10 2.37 3.08 1.04 90.09 NA 0.20 0.78 2.70 NA	315.03 NA NA 0.04 6.04 1.43 2.24 2.26 0.98 (182.82) NA 0.18 0.78 2.77 NA	326.76 NA NA 0.14 5.34 1.11 2.40 7.13 1.06 59.54 NA 0.21 0.77 5.42 NA	315.03 NA NA 0.05 6.04 1.40 2.23 2.43 0.98 (182.82) NA 0.18 0.78 5.52 NA	319.6 N. 0.1 5.7 1.4 2.2 7.0 1,142.4 N. 0.1 0.7 11.0 N.
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Equity Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (ISCR) Net profit after tax; Current ratio; Long term debt to working capital; Bad debts to Account receivable ratio; Current liability ratio; Total debts to total assets; Debtors turnover;- not annualised Inventory turnover;- not annualised Operating margin (%);	326.76 NA NA 0.08 5.34 1.12 2.43 4.05 1.06 59.54 NA 0.21 0.77 2.71 NA 39%	322.71 NA NA 0.06 5.57 1.10 2.37 3.08 1.04 90.09 NA 0.20 0.78 2.70 NA	315.03 NA NA 0.04 6.04 1.43 2.24 2.26 0.98 (182.82) NA 0.18 0.78 2.77 NA 39%	326.76 NA NA 0.14 5.34 1.11 2.40 7.13 1.06 59.54 NA 0.21 0.77 5.42 NA 39%	315.03 NA NA 0.05 6.04 1.40 2.23 2.43 0.98 (182.82) NA 0.18 5.52 NA 39%	319.6 N. 0.1 5.7 1.4 2.2 7.0 1.142.4 N. 0.1 0.7 11.0 N. 399
21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 45 36 37	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve; Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) Debt Service Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (DSCR) Interest Service Coverage Ratio (ISCR) Net profit after tax; Current ratio; Long term debt to working capital; Bad debts to Account receivable ratio; Current liability ratio; Total debts to total assets; Debtors turnover; - not annualised Inventory turnover; - not annualised	326.76 NA NA 0.08 5.34 1.12 2.43 4.05 1.06 59.54 NA 0.21 0.77 2.71 NA	322.71 NA NA 0.06 5.57 1.10 2.37 3.08 1.04 90.09 NA 0.20 0.78 2.70 NA	315.03 NA NA 0.04 6.04 1.43 2.24 2.26 0.98 (182.82) NA 0.18 0.78 2.77 NA	326.76 NA NA 0.14 5.34 1.11 2.40 7.13 1.06 59.54 NA 0.21 0.77 5.42 NA	315.03 NA NA 0.05 6.04 1.40 2.23 2.43 0.98 (182.82) NA 0.18 0.78 5.52 NA	319.6 N

- The company was incorporated on December 8, 2009 with the main object of Installation, Operation and The company was incorporated on December 5, 2009 with the man object of installation, Operation a Maintenance of Crude and Finished Products Tankages facility at Paradip Refinery of IOCL in Paradip. Paid up debt capital represents Non Convertible Debentures(NCD's)
- Debt Equity Ratio : Debt/Equity
- Debt includes all the secured loans including Non Convertible Debentures Equity includes Equity Share Capital and Reserve and Surplus (excluding Revaluation Reserves).
- DSCR=Earning before Depreciation, Interest & Tax, excluding exceptional items/(Interest+Principal ISCR=Earning before Depreciation, Interest & Tax, excluding exceptional items/Interest
- The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at its meeting held on November 12, 2021. The statutory auditors of the Company fout the Limited Review of the Financial Results and have issued an unmodified report thereon.
- These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards 34 Interim Financial Reporting ("Ind AS 34") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued and other accounting principles generally
- Details of previous and next due date non convertible debentures are as follows

SI No	Particulars	Previous	Due Date	Next Due Date			
		Principal	Interest	Interest	Principal		
1	Non Convertible Debentures	20-Sep-21	20-Sep-21	20-Oct-21	20-Oct-21		

- Note: Interest and principal was paid on due date.
- Credit rating and change in credit rating (if any): "CRISIL AAA" and "IND AAA" The company has created Security Interest on the following in favour of the Debenture Trustee for the beneficia
- interest of the Debenture Holders: Interest of the Debendure molecus.

 a first ranking inter se pari passu Security Interest, including first ranking pari passu charge/assignment on Project's cash flows and receivables under BOOT Agreement, including any monies receivable or claims or credit or benefit for CENVAT credit in favour of the Debenture Trustee;
- (ii) a first ranking inter se pari passu Security Interest, including charge/mortgage on the fixed assets (moveable and immovable property) of the Company, both present and future, in favour of the Debenture Trustee for the beneficial interest of the Series I Debenture Holders, Series II Debenture Holders and Series III Debenture Holders and a second ranking charge on the fixed assets (movable and immovable property) of the Company in favour of the Debenture Trustee for the beneficial interest of the Series IV Debenture Holders, in favour of the Debenture Trustee for the beneficial interest of the Series V Debenture Holders;
- (iii) a first ranking inter se pari passu Security Interest, including charge/assignment on all the intangible of of the Company and uncalled capital in favour of the Debenture Trustee;
- (iv) assignment by way of pari passu Security Interest of all rights, titles and interests of the Company in, to and under all Project Documents, Insurances, IOTL Bank Guarantee to which the Company is a party and all other
- (v) a first ranking inter se pari passu Security Interest, including charge/assignment on the Accounts (as well as amounts lying to the credit thereof, including Cash DSRA as well as any Permitted Investments made there from in favour of the Debenture Trustee;
- (vi) IOTL Guarantee with respect to Debt Service Reserve Account is of Rs. 74.00 crores (March 2020 : Rs 74
- Asset cover available as on September 30, 2021 in case of the non-convertible debt securities issued by the
- company is 1.128 times.
- The Company is principally engaged in a single business segment viz terminaling. Tax expense comprises only of Deferred Tax.

Place : Mumbai

Date: November 12, 2021

For and behalf of the Board SREEKANTH THAMBISETTY **DIRECTOR & CEO**



Regd. Office: "Uniworth House" 3 A, Gurusaday Road, Kolkata-700 019. CIN: L55101WB1999PLC090672. Tel.No.: (91 33) 2283 7964. Fax No.: (91 33) 2280 9282; Website: www.speciality.co.in Email: corporate@speciality.co.in

Extract of Financial Results for the quarter and half year ended 30th September 2021

₹in Lakhs (Except per share data)

		Standalone				Consolidated		Standa	alone	Consol	idated	Standalone	Consolidated
Sr.	Particulars		Quarter Ended	I		Quarter Ended	ı	Six Month	ns Ended	Six Months Ended		Year Ended	Year Ended
No		30.09.2021 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from operations	6,173	3,043	1,964	6,173	3,043	1,964	9,216	2,791	9,216	2,791	15,014	15,014
2	Net Profit / (Loss) for the period (before share of loss in Joint venture, and tax)	280	(853)	(1,437)	280	(853)	(1,437)	(573)	(3,401)	(573)	(3,401)	(2,917)	(2,903)
3	Share of loss in Joint venture	-	-	-	(20)	(4)	(4)	-		(24)	(7)		(14)
4	Net Profit / (Loss) before tax for the period	280	(853)	(1,437)	260	(857)	(1,441)	(573)	(3,401)	(597)	(3,408)	(2,917)	(2,917)
5	Net Profit / (Loss) after tax for the period	280	(853)	(1,437)	260	(857)	(1,441)	(573)	(3,401)	(597)	(3,408)	(2,934)	(2,934)
6	Total comprehensive income for the period (comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	273	(843)	(1,413)	221	(811)	(1,397)	(570)	(3,426)	(590)	(3,424)	(2,908)	(2,848)
7	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10 per share)	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696
8	Earnings per equity share (of ₹10/- each) (not annualised for quarter and half year)												
	(a) Basic	0.60	(1.82)	(3.06)	0.55	(1.83)	(3.07)	(1.22)	(7.24)	(1.27)	(7.26)	(7.26)	(6.25)
	(b) Diluted	0.60	(1.82)	(3.06)	0.55	(1.83)	(3.07)	(1.22)	(7.24)	(1.27)	(7.26)	(7.26)	(6.25)

Note The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to make the same available on the websites of the Stock Exchanges on which the Shares of the Company are listed, namely, www.bseindia.com and www.nseindia.com. The full format of the said results are also available on the Company's website www.speciality.co.in.

2. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13 November, 2021.

Place: Mumbai Date: 13th November, 2021 For and on behalf of the Board Anjan Chatterjee Chairman & Managing Director (DIN: 00200443)

MAINLAND Oh! CALONTYA GLOBAL GRILL RIYNSAT MEZZUNA HAKA EPISODE One Sweet Bengal

GALANT

GALLANTT ISPAT LIMITED

Regd. Office: "GALLANTT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Delhi - 110014 Telefax: 011-41645392; www. gallantt.com; E-mail: nitesh@gallantt.com; CIN: L27109DL2005PLC350523

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021 (₹ In Lakhs except EPS)

Ш.	_			STANDAL	ONE RESULTS		CONSOLIDATED RESULTS						
	Sr. Particulars No.	Quarter ended 30.09.2021 Unaudited	Quarter ended 30.06.2021 Unaudited	Quarter ended 30.09.2020 Unaudited	Half-Year ended 30.09.2021 Unaudited	Half-Year ended 30.09.2020 Unaudited	Year ended 31.03.2021 Audited	Quarter ended 30.09.2021 Unaudited	Quarter ended 30.06.2021 Unaudited	Quarter ended 30.09.2020 Unaudited	Haif-Year ended 30.09.2021 Unaudited	Half-Year ended 30.09.2020 Unaudited	Year ended 31.03.2021 Audited
ŀ	Total Income from Operations (Net)	28,178.20	30,733.91	22,172.24	58,912.11	40,348.71	1,10,976.65	30,372.80	32,837.63	22,172.24	63,210.42	40,348.71	1,10,019.60
ľ	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	709.57	3,342.65	1,179.61	4,052.23	3,476.72	13,569.13	626.31	3,438.83	1,179.61	4,065.14	3,476.72	12,590.85
1	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and /or Extraordinary Items)	709.57	3,342.65	1,179.61	4,052.23	3.476.72	13,569.13	626.31	3,438.83	1,179.61	4,065.14	3,476.72	12,590.85
ľ	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	895.45	2,550.93	1,036.84	3,446.38	·	10,366.30	1,062.32	3,589.70	1,243.23	4,652.02	2,895.00	12.341.34
į	5. Total Comprehensive Income for the period	033.43	2,000.00	1,000.04	3,440.30	2,030.32	10,300.30	1,002.32	3,369.70	1,243.20	4,002.02	2,093.00	12,041.04
	[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income												
L	(after tax)]	918.71	2,574.18	1,039.85	3,492.89		10,459.32	1,088.52	3,615.90	1,246.12	4,704.42	2,900.77	12,446.15
Щ	Paid up Equity Share Capital	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61
Ш	7. Earnings Per Share												
Ш	(Face Value of ₹1/- each) (for continuing												
Ш	and discontinued operations) –												
Ш	1. Basic:	0.32	0.90	0.37	1.22	0.95	3.67	0.38	1.27	0.44	1.65	1.03	4.37
Ш	2. Diluted:	0.32	0.90	0.37	1.22	0.95	3.67	0.38	1.27	0.44	1.65	1.03	4.37

NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2021 (UFR) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the UFR is available on the website of BSE Limited – www.bseindia.com and National Stock Exchanges of India Limited - www.nseindia.com/where the securities of the Company are listed and is also available on the website of the Company - www.gallantt.com
- The above Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated)have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Meetings held on 13th November, 2021. UFR have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.
- 3. Previous period/year figures have been rearranged/regrouped, reclassified and restated wherever considered necessary.

Place: New Delhi Date: 13th November. 2021

(3.26)

(0.78)

(1.34)

For and on behalf of the Board of Directors GALLANTT ISPATLIMITED C.P. Agrawal Chairman & Managing Director (DIN: 01814318)

ZODIAC FINEST QUALITY CLOTHING

EXTRACT FROM THE STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021

STANDALONE CONSOLIDATED **QUARTER ENDED ON** HALF YEAR ENDED ON YEAR ENDED ON QUARTER ENDED ON HALE YEAR ENDED ON VEAR ENDED ON **PARTICULARS** Sep 30, 2021 June 30, 2021 Sep 30, 2020 Sep 30, 2021 Sep 30, 2020 March 31, 2021 Sep 30, 2021 June 30, 2021 Sep 30, 2020 Sep 30, 2021 Sep 30, 2020 March 31, 2021 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 3,348 13,249 3,361 2,490 12,751 3,133 6,48 6,159 Net Loss for the period before tax (822) (903) (1,086)(778)(1,596) (2,977)(81) (308)(2,317)(818)(251) (1,694)Loss for the period after tax (809) (192)(302)(1,001)(1,193)(2,391)(798)(781)(244) (1,579)(1,695)(2,938)Total Comprehensive Loss for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (765) (127)(250)(892) (1,240)(2,198)(763)(655) (305)(1,418)(1,772)(2,797)Paid up Equity Share Capital 2,476 2,476 2,248 2,476 2,248 2,476 2,476 2,476 2,248 2,476 2,248 2,476 20,326 23,137 Loss Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (in Rs.) (3.26)(0.78)(1.34)(4.04)(5.31)(10.61)(3.23)(3.15)(1.09)(6.38)(7.54)(13.04)

(10.61)

(3.23)

(3.15)

(1.09)

1. Total Income

Other Equity

1. Basic:

Place: Mumbai

Date: November 13, 2021

2. Diluted:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015

(5.31)

(4.04)

The full form at of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on Company's website www.zodiaconline.com.
b) The Ministry of Corporate Affairs vide notification dated July 24, 2020, issued an amendment to Ind AS 116-Leases, by inserting a practical expedient for "Covid-19- Related Rent Concessions" and vide notification dated June 18, 2021, extended such practical expedient upto June 30, 2022. Pursuant to the said amendment, the Company has applied the practical expedient with effect from April 01, 2020 in respect of leases, where negotiations have been completed, by accounting the unconditional rent concessions in "Total Income". Further, gain on termination of lease contracts has also been recognised in "Total Income".

The amount included in the "Total income" are as	TOIIOWS:											
			STAND	ALONE		CONSOLIDATED						
PARTICULARS	Quarter Ended on Sept 30, 2021	Quarter Ended on Jun 30, 2021	on	Ended on	Half Year Ended on Sept 30, 2020	on	Quarter Ended on Sept 30, 2021	on	Quarter Ended on Sept 30, 2020	Ended on	Half Year Ended on Sept 30, 2020	Year ended on March 31, 2021
Covid-19 related rent concessions	64	154	474	218	900	1,152	64	154	474	218	900	1,152
Gain on termination / remeasurement / modification												
of lease contracts	19	130	552	149	590	615	19	130	552	149	590	615
Total	83	284	1,026	367	1,490	1,767	83	284	1,026	367	1,490	1767

284 367 1,490 1,767 1,026 83 c) The State Government authorities had imposed various restrictions to control the spread of Covid 19 pandemic during the period and consequently, the low market demand had affected the Company's operations for the period. However, the Company had taken various steps including cost reduction measures, bringing in operational synergies etc. to ensure sufficient liquidity for the Company's operations and with easing of certain restrictions effective June 2021 by State government authorities, the Company's activities (including retail stores) are now fully operational.

The Company's Management has done an assessment of the situation (including the liquidity position after taking into consideration continuing cost reduction measures, available investments, surplus funds with the Group, undrawn bank facilities etc.), and carrying value of all its assets and liabilities as at September 30, 2021, and concluded that there are no material adjustments required in the unaudited standalone financial results. However, the impact assessment due to COVID -19 is a continuing process given the uncertainty associated with its nature and duration. The Company will continue to monitor any material changes as the situation evolves.

d) The Company has during the period incorporated wholly owned step-down subsidiary Zodiac Clothing Company Inc. in United States of America effective from May 11, 2021.

For and on behalf of the Board of Directors

S. Y. NOORANI

Vice Chairman & Managing Director DIN: 00068423

(6.38)

(13.04)

(7.54)

Regd. Office: Nyloc House, 254, D-2, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030. Tel: 022-66677000, Fax: 022-66677279,

ZODIAC CLOTHING COMPANY LTD.

Website: www.zodiaconline.com, Email Id: cosecy@zodiacmtc.com CIN: L17100MH1984PLC033143









त्रिपुरा हिंसा मामलाः दो महिला पत्रकार महाराष्ट्रः हिंसा के बाद नांदेड़ की को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों को उकसाकर हिंसा फैलाने के मामले में त्रिपुरा पुलिस ने दर्ज की प्राथिमकी

करीमगंज (असम) 📕 मेट्रो

दिल्ली स्थित डिजिटल मीडिया एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क की दो महिला पत्रकारों समृद्धि के सकृनिया और स्वर्णा झा को असम की करीमगंज जिला के नीलाम बाजार पुलिस रविवार की शाम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

दोनों पर त्रिपुरा पुलिस ने आरोप लगाया है कि कथित रूप से गोमती जिला की एक मस्जिद में कुरान जलाने और एक हिंदू समूह द्वारा निर्माणाधीन मस्जिद ढहाने की कहानी इन दोनों पत्रकारों ने बनाई, जिसके चलते पिछले दो दिन में है कि ये पत्रकार उस टीम का हिस्सा

सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने के आरोप में सेना का जवान गिरफ्तार

पटना। राजधानी पटना के खगौल थाना क्षेत्र से भारतीय सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। सेना के जवान को बिहार आतंक निरोधी दस्ता (एटीएस) ने गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वो एक पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था। उससे लगातार देश की सुरक्षा से जडी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहा था। इस मामले में इंटेलिजेंस (पीएलए) और मणिपुर नागा पीपुल्स ब्यरो (आईबी) और मिलिटी इंटेलिजेंस को इनपुट मिली थी।

इस पर बिहार एटीएस की टीम ने काम किया। कुछ और ठोस सबूत जुटाए। इसके बाद उस जवान को आज खगौल थाना क्षेत्र से स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार जवान नालंदा जिले के अस्थावां गांव

जवान है। इसकी पोस्टिंग पुणे में थी। किया और लिखा, 13 नवम्बर को उसने पाकिस्तानी महिला रिया (बदला हुआ नाम) के साथ सूचना

नर्ड दिल्ली मेट्रो मीडिया

भारत के रक्षा और सुरक्षा सहयोग को

और मजबूत करने के उद्देश्य से सेना

प्रमुख जनरल एमएम नरवणे मित्र

देश इजराइल लिए रविवार को पांच

दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। सेना

प्रमुख की यात्रा विदेश मंत्री एस

जयशंकर और रक्षा सचिव अजय

कुमार द्वारा रणनीतिक संबंधों को

बढावा देने के तरीके तलाशने के

लिए इजराइल की यात्रा के हफ्तों बाद

प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरके एस

भदौरिया ने भी इजराइल की यात्रा की

थी। सेना ने एक ट्वीट कर कहा,

सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे

इजराइल की पांच दिवसीय यात्रा पर रवाना हए। इस दौरे का उद्देश्य दोनों

देशों के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग

अगस्त में तत्कालीन वायसेना

हो रही है।



महाराष्ट्र में हिंसा हुई। पुलिस का दावा हैं जो पिछले दो हफ्तों से ग्रुप्स में झूठी जानकारी फैला रही हैं। दोनों आकर सांप्रदायिक हिंसा के बारे में गुरुवार को राज्य में कथित

पीएलए एवं एमएनपीएफ ने मणिपुर हमले की जिम्मेदारी

इंफाल 📕 मेट्रो मीडिया

मणिपर में शनिवार को असम राइफल्स की टुकड़ी पर हुए आतंकी हमले की दो प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों ने जिम्मेदारी ली। हमले में एक कमांडर समेत पांच जवान शहीद हो गए और कमांडर के परिवार के दो सदस्यों की जान गई है।

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी फ्रंट (एमएनपीएफ) ने संयक्त बयान में दावा किया है कि उन्होंने चराचांदपर जिला के सेहकन गांव में अर्धसैनिक बल पर हमले को अंजाम दिया। हमले में असम राइफल्स की बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और आठ साल के बेटे के अलावा बल के चार जवान शहीद हो गए। इस बीच असम राइफल्स सेना में वह मेडिकल कोर का मुख्यालय के डीजी ने शोक व्यक्त विद्रोहियों द्वारा घात लगाकर हमला जवानों ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च 43 के करीब हुई है।

सेना प्रमुख जनरल नरवणे पांच

दिवसीय यात्रा पर इजराइल रवाना



ऑफिसर की पत्नी और बच्चे की भी जान चली गई। वह असम राइफल्स परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। 46वीं असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और उनका परिवार शनिवार सुबह करीब 10 बजे मणिपुर के चुराचांदपुर जिलांतर्गत सिंगनघाट सब डिविजन के एस गिरफ्तार सेना के जवान गणेश दिन के 11 बजे असम राइफल्स के विप्लव त्रिपाठी (सीओ-46 एआर), कुमार ने पूछताछ में बताया कि एक काफिले पर थिंगघाट, मणिपुर में पत्नी और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य घायलों को किया गया था। 46वीं असम बेहियांग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साझा की थी। पाकिस्तानी महिला ने राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर भर्ती कराया गया। यह वारदात पहचान बदलकर दो साल पहले कर्नल विप्लव त्रिपाठी सहित पांच भारत-म्यांमार सीमा के पिलर संख्या

सांप्रदायिक तनाव को कवर करने आने की बात कही है।

सत्रों के अनसार, त्रिपरा आने के बाद दोनों गोमती जिला के उदयपुर इलाके में गई थीं। इसके बाद पश्चिमी त्रिपुरा के अल्पसंख्यक-बहुल मोहल्लों में पहुंची। शनिवार को वे उन्नाकोटि जिले में पहुंची जहां के पाल बाजार इलाके में कथित रूप से एक हिंदु समृह द्वारा निर्माणाधीन मस्जिद ढहाने की कहानी गढ़कर लोगों को भड़काने की कोशिश की।

मोका पाकर दोनों उन्नाकोटि जिला छोड़ चुकी थीं और उत्तरी त्रिपरा के मख्यालय धर्मनगर के होटल में रुकी हुई थीं। पुलिस रात में ही नोटिस थमाने के लिए पहुंची। दोनों के विरुद्ध धर्म के आधार पर दो धारा 153-ए और आपराधिक साजिश रचने के लिए 420-बी का नोटिस दिया गया। हालांकि उन्हें रात में नोटिस नहीं लिया।

सिब्बल से बात हो रही है। वे दिल्ली की यात्रा के लिए अगली सुबह कर रही है।

होटल में रोक लिया। कुछ समय बाद, एक वकील आया और फिर उसने नोटिस रिसीव किया। पुलिस ने

बोनों के विरुद्ध

के बाद

शिकायतें मिलने

फटिकरॉय थाने

मुकदमा दर्ज

में दोनों के विरुद्ध

किया गयाः पुलिस

अगरतला की लोकल ट्रेन पकड़ना

चाहती थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें

उन्हें अगरतला तक जाने की इजाजत दे दी, जहां उन्हें 21 नवम्बर को अपना बयान दर्ज कराना था लेकिन दोनों मौका पाकर सड़क मार्ग से त्रिपुरा से निकलकर रविवार को असम पहुंच गयी।

पुलिस के अनुसार, दोनों के विरुद्ध शिकायतें मिलने के बाद फटिकरॉय थाने में दोनों के विरुद्ध गुवाहाटी। प्रतिबंधित संगठन मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपों के अनुसार समृद्धि और स्वर्णा ने स्थानीय मुस्लिमों को उकसा कर उनसे विश्व हिंद परिषद (विहिप) के खिलाफ बयान दिलवाया कि 23 अक्टूबर को 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुए पाल बाजार की मस्जिद समुहों में नफरत भड़काने के लिए गिरा दी थी। त्रिपुरा पुलिस की सिक्रयता के बाद दोनों त्रिप्रा से भागने की कोशिश की। असम के करीमगंज जिला शहर

पहुंचने पर त्रिपुरा पुलिस की सूचना उन्होंने दिल्ली में किसी वकील पर करीमगंज के नीलामबाजार को फोन किया और कहा कि कपिल पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर करीमगंज थाने में फिलहाल पूछताछ पुलिस ने 35 लोगों को किया गिरफ्तार

स्थिति नियंत्रण और शांतिपूर्ण

औरंगाबाद 📕 मेट्रो मीडिया

पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में हाल में हुई

रविवार को यह जानकारी दी।

सार्वजनिक संपत्ति को नकसान

शेवाले ने मीडिया को बताया, 'घटना

को लेकर नांदेड़ में चार मामले दर्ज

किए गए हैं। नांदेड़ पुलिस ने अब

तक इस घटना में कथित रूप से

शामिल 35 लोगों को गिरफ्तार किया

है। स्थिति अब नियंत्रण में और

उल्फा स्व ने एकतरफा

युद्धविराम को तीन

महीने और बढ़ाया

युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम

(उल्फा) स्वतंत्र (स्व) ने रविवार को

इस साल मई में घोषित एकतरफा

यद्धविराम को और तीन महीने के

स्वयंभु कमांडर-इन-चीफ परेश

बरुवा ने बयान जारी कर दी है।

इससे पहले असम के मुख्यमंत्री डॉ

हिमंत बिस्व सरमा ने प्रधानमंत्री और

अन्य के साथ उल्फा स्व के साथ

प्रतिबंधित संगठन ने कोरोना का

बातचीत करने पर चर्चा की थी।

महीने बढ़ाने की घोषणा की थी।

यह जानकारी उल्फा स्व के

पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार

पहुंचने का अनुमान लगाया है।



शांतिपूर्ण है। सार्वजनिक संपत्ति को विभिन्न स्थानों पर पथराव हुआ था नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न अपराधों के लिए मामले दर्ज किए गए सदस्यों द्वारा निकाली गई रैलियों के हैं। गौरतलब है कि त्रिपुरा में कथित विरोध में भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा निकाली गई रैलियों के दौरान शक्रवार को महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़, मालेगांव

अल्पसंख्यक (भाजपा) द्वारा कथित रूप से आयोजित बंद के दौरान भीड़ द्वारा दुकानों पर पथराव करने के बाद शनिवार को अमरावती शहर में कर्फ्यू

ईडी और सीबीआई चीफ का कार्यकाल अब होगा 5 साल

नई दिल्ली मेट्रो मीडिया केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुखों का कार्यकाल मौजदा दो साल से बढाकर अब पांच साल का हो गया है। इसी के मद्देनजर दो अलग–अलग अध्यादेश रविवार को जारी किए गए। अध्यादेश के मृताबिक, कार्यालय में दो साल पूरे होने के बाद यदि सेवा विस्तार को चयन समिति द्वारा मंजूर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना हवाला देते हुए इस साल मई में अपने अधिनियम, 1946 में संशोधन करने एकतरफा युद्धविराम को और तीन वाले एक अध्यादेश के माध्यम से यह परिवर्तन प्रभावी हुआ था। इसी

लिए बढ़ाया जा सकता है।

कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के

केंद्र सरकार ने रविवार को दो अलग-अलग अध्यादेश जारी किए

तरह के एक अन्य अध्यादेश में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करते हुए ईडी प्रमुख के कार्यकाल को पांच साल तक बढाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके अंतर्गत कार्यकाल को एक साल में एक बार ही बढ़ाया जा सकेगा। यह अध्यादेश ऐसे समय में आया है, जबकि कुछ ही समय में संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित होने वाला है।

डेंगू से निषटने के लिए युद्धस्तर पर जुटा हैं निगम: डॉ. संजोगिता सूदन

जम्मू। जम्मू शहर व संभा के जम्म्मू, कठुआ व सांबा जिलों में डेंग के बढ़ते मामलों के बीच जम्म नगर निगम का हेल्थ डिपार्टमेंट जम्मू शहर में सात फॉगिंग मशीनों व 30 दवा छिड़काव पंप्स तथा 30 अतिरिक्त पंप्स से पुरे शहर से डेंग् मच्छर को खत्म करने में युद्धस्तर पर जुट गया हैं। जम्मू नगर निगम ने जो फॉगिंग कैलेंडर जारी करने के अतिरिक्त जरुरत के अनुसार फॉगिंग व दवा छिड़काव का सिलसिला आरंभ करने के साथ-साथ जन जागरूकता अभियान भी छेड़ दिया हैं।

जन जागरूकता अभियान के तहत डेंगू के तेरिक्त कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी भी जनता के बीच विभिन्न माध्यमों से प्रचारित-प्रसारित की जा रही हैं।

बता दे कि जम्मू नगर निगम के अधीन 75 अनुसार भी सभी वार्ड में फॉगिंग करने में भले ही एक महीने का समय लगेगा लेकिन किसी भी वार्ड में दोबारा फॉगिंग करनी पड़ी तो उसे तरंत किये जाने के साथ साथ दवा छिड़काव के माध्यम से डेंग मच्छर के लावां प्रजनन की प्रक्रिया पर प्रहार किया जा रहा हैं। यानि मादा मच्छर को समाप्त करने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा हैं।

डेंगू मच्छर से करें अपना बचाव



जम्मू नगर निगम की हेल्थ ऑफिस डॉ. मच्छरों के लावां को समाप्त करने की तैयारी हैं। इसके अतिरिक्त 30 और पंप्स तैयार कर दवा छिडकाव की तैयारी हैं जिससे मच्छरों की प्रजनन प्रक्रिया पर सीधा प्रहार किया जा सके। साथ ही जन जागरूकता के जरिये लोगों को इस बारे में जानकारियां उपलब्ध करवा बीमारियों की चपेट में आने से बचने के उपाय भी समझाए जा रहे हैं।

बता दे कि जम्मू शहर व जिले तथा संभाग के सांबा व कठआ जिलों में तेजी से पांव पसार रहा है और बड़ों से लेकर बच्चों तक को अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में डॉ. संजोगिता सूदन का कहना हैं कि डेंग से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की जरूरत है। उनका कहना हैं कि डेंगू बुखार एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है।

डॉ. संजोगिता ने बताया कि डेंगू बुखार के कारणों के पीछे मादा मच्छर होती है जो आपके था। मंत्रालय की तरफ से जारी लिस्ट आस-पास पानी के बर्तनों और पौधों में अंडे देती में कल 13 फमें हैं जिनके साथ है। मच्छरों की यह प्रजाति बदलते पार्यवरण के मंत्रालय ने सौदे को निलंबित या रोक कारण साल भर जीवित रह सकती है और मनुष्यों दिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक के साथ-साथ जानवरों को भी अपनी चपेट में ले आधिकारिक बयान में कहा कि इन सकती है। उन्होंने बताया कि डेंगू फैलाने वाला फर्मों में आईडीएस, एडीज इजिप्टी एक छोटा, गहरे रंग का मच्छर होता युनिटेक एंटरप्राइजेज और अन्य है जिसमें बंधी हुई टांगें होती हैं। इस वजह से ये मादा मच्छर ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाती हैं और रक्षा मंत्रालय ने इजरायल सैन्य दूसरे मच्छरों की तुलना में इजिप्टी छोटे होते हैं। उद्योग, निगम रक्षा, रूस और अन्य मच्छर आमतौर पर लोगों को घर के अंदर काटता है और दिन के समय पानी में अंडे देता है जिसमें प्रतिबंधित कर दिया है। गौरतलब है पत्तियां, शैवाल आदि जैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कि कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड के डॉ. संजोगिता ने आगे बताया कि यह मादा मच्छर, इंसानों को काटने के तीन दिन बाद अंडे देती है। जब बारिश में अंडे पानी से भर जाते हैं, तो इनमें से लार्वा निकलता है।

रक्षामंत्रालय ने जारी की प्रतिबंधित फर्मों की नई सुची

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय नेउन

फमों की एक नई सुची जारी की, जिनके साथ सौदे को निलंबित कर दिया गया है या रोक दिया गया है या खरीद को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ताजा सची में अगस्ता वेस्टलैंड और उसकी मूल कंपनी लियोनार्डो को बाहर रखा गया है। रक्षा मंत्रालय ने इस महीने की शरुआत में शतों के साथ उन पर से प्रतिबंध हटा लिया कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा, स्वामित्व वाली कंपनी फिनमेक ानिका से खरीद पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने की खबरों को लेकर सरकार पर निशाना साधा था।

वार्ड आते हैं और इन वार्ड में कई लोग डेंगू का संजोगिता सूदन का कहना हैं कि उनके पास अब शिकार भी हो चुके हैं। निगम के कैलेंडर के सात फॉगिंग मशीनों के आलावा 30 पंप्स से

GALANT

GALLANTT ISPAT LIMITED

Regd. Office: "GALLANTT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Delhi - 110014 Telefax: 011-41645392; www. gallantt.com; E-mail: nitesh@gallantt.com; CIN: L27109DL2005PLC350523

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021

	Particulars	STANDALONE RESULTS							CONSOLIDATED RESULTS						
Sr. No.		Quarter ended 30.09.2021 Unaudited	Quarter ended 30.06.2021 Unaudited	Quarter ended 30.09.2020 Unaudited	Half-Year ended 30.09.2021 Unaudited	Half-Year ended 30.09.2020 Unaudited	Year ended 31.03.2021 Audited	Quarter ended 30,09,2021 Unaudited	Quarter ended 30.06.2021 Unaudited	Quarter ended 30.09.2020 Unaudited	Half-Year ended 30.09,2021 Unaudited	Half-Year ended 30.09.2020 Unaudited	Year ended 31.03.2021 Audited		
1.	Total Income from Operations (Net)	28,178.20	30,733.91	22,172.24	58,912.11	40,348.71	1,10,976.65	30,372.80	32,837.63	22,172.24	63,210.42	40,348.71	1,10,019.60		
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	709.57	3,342.65	1,179.61	4,052.23	3,476.72	13,569.13	626.31	3,438.83	1,179.61	4,065.14	3,476.72	12,590.85		
3.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and /or Extraordinary Items)	709.57	3,342.65	1,179.61	4,052.23	3,476.72	13,569.13	626.31	3,438.83	1,179.61	4,065.14	3,476.72	12,590.85		
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	895.45	2,550.93	1,036.84	3,446.38	2,696.32	10,366.30	1,062.32	3,589.70	1,243.23	4,652.02	2,895.00	12,341.34		
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	918.71	2,574,18	1.039.85	3,492.89	2,702.34	10.459.32	1.088.52	3,615.90	1,246.12	4,704,42	2,900.77	12.446.15		
6.	Paid up Equity Share Capital	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61	2,823.61		
7.	Earnings Per Share (Face Value of ₹1/- each) (for continuing and discontinued operations) – 1. Basic: 2. Diluted:	0.32 0.32	0.90 0.90	0.37 0.37	1.22 1.22	0.95 0.95	3.67 3.67	0.38	1.27 1.27	0.44	1.65 1.65	1.03	4.37 4.37		

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2021 (UFR) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the UFR is available on the website of BSE Limited - www.bseindia.com and National Stock Exchanges of India Limited -www.nseindia.comwhere the securities of the Company are listed and is also available on the website of the Company – www.gallantt.com
- The above Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated)have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Meetings held on 13th November, 2021. UFR have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.

3. Previous period / year figures have been rearranged / regrouped, reclassified and restated wherever considered necessary.

For and on behalf of the Board of Directors **GALLANTT ISPATLIMITED** C.P. Agrawal Chairman & Managing Director (DIN: 01814318)

ने कहा कि जनरल नरवणे दोनों देशों बढावा देने के लिए इजराइल के शीर्ष बातचीत करेंगे। भोपाल में पीएम मोदी के ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी

को और बढ़ावा देना है। अधिकारियों के बीच समग्र सैन्य सहयोग को सैन्य अधिकारियों के साथ व्यापक

मोपाल 📕 मेट्रो मीडिया

तैयारी की गई है।मोदी भोपाल में विरसा मुंडा की जयंती पर हो रहे जनजातीय सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के मुताविक हालांकि प्रधानमंत्री राज्य सरकार के कार्यक्रम में आ रहे हैं लेकिन संगठन की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते पर भाजपा कार्यकर्ता उनकी योजनाओं की झांकी सजा कर उनका स्वागत करेंगे। शर्मा के मुताविक प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम

किया है।इस बजह से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग उनका स्वागत करेंगे। इनमें ओलंपिक खिलाड़ी भी शामिल होंगे। चूंकि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने

करेगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब आदिवासी सोमवार को भोपाल आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गोंड रानी और भोपाल की पूर्व शासक रानी कमलापति ऐतिहासिक स्वागत करने की तैयारी मध्यप्रदेश भारतीय के नाम पर रखा गया है।अब यह स्टेशन रानी कमलापित जनता पार्टी ने की है!इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा।

> को दुल्हन की तरह सजाया गया है।जनजातीय गौरव समारोह के लिए पूरे प्रदेश से आदिवासियों को भोपाल लाया जा रहा है।सरकार का दावा है कि करीब ढाई लाख आदिवासी सोमवार को भोपाल में रहेंगे।साथ ही यह समारोह हर ग्राम पंचायत में भी होगा।भाजपा अध्यक्ष का दावा है कि प्रदेश के करीब दो करोड़ लोग इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री आदिवासियों के लिए कई नई

राज्य सरकार इन योजनाओं पर अमल करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कई दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं रविवार को वे आदिवासी कलाकारों का उत्सव मनाया जा रहा है इसलिए प्रदेश के आजादी के के बीच आदिवासी वेशभूषा में पहुंचे।उन्होंने इन आंदोलन से जुड़े 75 स्थलों की पवित्र माटी प्रतीक के तौर कलाकारों के साथ नृत्य भी किया।यह कलाकार कल पर प्रधानमंत्री को भेंट की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के सामने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय समारोह में शामिल होने के साथ प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर भोपाल में सुरक्षा का साथ भोपाल में निजी क्षेत्र की भागीदारी से बनाये गए व्यापक बन्दोवस्त किया गया है।केंद्रीय एजेंसियों के साथ हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और नामकरण भी राज्य सरकार के कई हजार सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए।

मोदी के स्वागत के लिये भोपाल शहर योजनाओं का ऐलान करेंगे।

Date: 13th November, 2021